



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3350]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 11, 2019/आश्विन 19, 1941

No. 3350]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 11, 2019/ASVINA 19, 1941

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अक्टूबर, 2019

सं. 24 / 2015-2020

विषय: भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की आयात नीति में संशोधन।

का.आ. 3685(अ).—समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा आईटीसी (एचएस), 2017, अनुसूची-I (आयात नीति) के अध्याय 63 की नीतिगत शर्त सं. 1 के रूप में आयात नीति से संबंधित सामान्य टिप्पणी के निम्नलिखित पैरा 18 को समाविष्ट करती हैं:

“भारतीय ध्वज कोड, 2002 के भाग I, खण्ड 1.2 के तहत निर्धारित विनिर्देशनों का पालन न करने वाले भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का आयात प्रतिबंधित है।”

सार्वजनिक सूचना का प्रभाव: भारतीय ध्वज कोड, 2002 के भाग I, खण्ड 1.2 के तहत निर्धारित विनिर्देशनों का पालन न करने वाले भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का आयात प्रतिबंधित है।

[फा. सं. एम-4947/2002/पीसी-2[क]/ई-3227]

बी.बी. स्वैन, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

टिप्पणी: प्रधान अधिसूचना सं. 36/2015-2020 दिनांक 17 जनवरी, 2017 को भारत के राजपत्र असाधारण में का.आ. सं. 172(अ) दिनांक 17 जनवरी, 2017 के तहत प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)****NOTIFICATION**New Delhi, the 11th October, 2019**No. 24 /2015-2020****Subject: Amendment in import policy of Indian National Flag.**

S.O. 3685 (E).—In exercise of powers conferred by Section 3 of FT (D&R) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, as amended from time to time, the Central Government hereby introduces a new Para 18 to General Notes regarding Import Policy and as policy condition No. 1 of Chapter 63 of ITC (HS), 2017, Schedule – I (Import Policy):

"Import of Indian National Flag not adhering to the specifications prescribed under Part – I, Section 1.2 of Flag Code of India, 2002 is Prohibited."

Effect of the Notification: Import of Indian National Flag not adhering to the specifications prescribed under Part – I, Section 1.2 of Flag Code of India, 2002 is Prohibited.

This issues with the approval of Minister of Commerce & Industry.

[F.No. M-4947/2002/PC-2[A]/e-3227]

B.B. SWAIN, Director General of Foreign Trade & Ex-officio Addl. Secy.

Note: The principal notification No. 36/2015-2020, dated the 17th January, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary vide number S.O. 172(E), dated the 17th January, 2017.